



Ref. No. CUJ/DSW/RD/2018/74/.....164.....

Dated: 12<sup>th</sup> August, 2021

### सूचना / Notice

1. सभी संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्थायी परिसर, चेड़ी-मनातु में पूर्वाह्न 9.00 बजे और ब्राम्बे परिसर में पूर्वाह्न 11.10 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा।

It is notified for information to all concerned that the Hon'ble Vice Chancellor will hoist the National Flag on 15<sup>th</sup> August, 2021 at 09:00 AM at **Permanent Campus, Cheri-Manatu** and at 11:10 AM at **Brambe Campus** on the occasion of Independence Day, 2021.

2. विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस समारोह में भाग लें। यह भी अनुरोध है कि निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ध्वजारोहण स्थल पर एकत्रित होने की कृपा करें।

All the students, teachers and employees of the University are requested to attend the function. It is also requested to assemble at the flag hoisting venue as per the programme given below:

#### Activities Schedule / Minute to Minute Programme of Independence Day Celebration – 2021

Time	Programme / Activities	Venue
8:40 AM	Arrival of All Non-Teaching employees	PERMANENT CAMPUS (Administrative Building)
8:43 AM	Arrival of Asst. Professor, Associate Professor and Section Heads	
8:45 AM	Arrival of Head/Co-ordinator of the Department	
8:48 AM	Arrival of Professors, Deans of School and all Statutory Officers	
8:50 AM	Arrival of Chief Guest Hon'ble Vice Chancellor	
8:55 AM	DSW invites the Hon'ble Vice Chancellor and walk through the red carpet	
8:58 AM	Guard Inspection by Hon'ble Vice Chancellor	
9:00 AM	Flag Hoisting by Hon'ble Vice Chancellor	
9:05 AM	National Anthem	
9:10 AM	Address by Hon'ble Vice Chancellor	
9:30 AM	Distribution of Refreshment to students, faculties, staff	
10:00 AM	<b>Tree Plantation at Permanent Campus</b>	
10:30 AM	<b><u>Departure to Brambe Campus</u></b>	



# झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(भारतीय संसद के अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित)  
(Established by an Act of Parliament of India in 2009)  
Homepage: <http://www.cuj.ac.in>

11:00 AM	Inspection of Guard by Hon'ble Vice Chancellor	<b>BRAMBE CAMPUS (Administrative Building)</b>
11:10 AM	Flag Hoisting by Hon'ble Vice Chancellor	
11:15 AM	National Anthem and Address by Hon'ble Vice-Chancellor	
11:30 AM	Distribution of Refreshment	
11:40 AM	Departure of Chief Guest, Hon'ble Vice Chancellor	
11:42 AM	Departure of Professors, Deans of School and all Statutory Officers	
11:44 AM	Departure of Head/ Co-ordinator of the Department.	
11:44 AM	Departure of all Teaching and Non-Teaching employees.	
11:45 AM	Departure to Ranchi city	

3. सभी से अनुरोध है कि घोषित समय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान प्रचलित कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें (एस०ओ०पी० की प्रति संलग्न है)।

All are requested to follow prevailing COVID protocol during the event as notified time to time.  
(SOP is annexed herewith).

  
कुलसचिव  
REGISTRAR

### Copy for information and necessary action to:

1. All Deans of Schools
2. The Controller of Examinations
3. The Librarian
4. All Heads / Coordinators
5. Prof. I/c Academic & Research
6. DSW / Chairman, Proctorial Board
7. DRs/EE I/c/ Health Centre I/c/PRO/AD (OL)/ARs/Security Officer/Transport I/c
8. Technical Cell I/c for University website
9. PS to Vice Chancellor /PS to Registrar/PS to Finance Officer
10. Notice Board, Concerned File & Guard File



स्वतंत्रता दिवस समारोह-2021 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

Standard operating procedure (SOP) for Independence Day Celebration-2021

- 1- सार्वजनिक स्थानों पर 2 लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें।  
Social distancing norm of 6 feet between two individuals must be maintained at all times in all public spaces inside the campus.
- 2- सभी साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोएं।  
Everyone must frequently wash hands with soap and water.
- 3- हाथ न मिलाएं - नमस्ते से स्वागत करें।  
No Hand Shake – Greet with Namaste.
- 4- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है।  
Spitting in public places is strictly prohibited.
- 5- खांसते और छींकते वक्त टिशू पेपर या कपड़े का प्रयोग करें या श्वसन शिष्टाचार का पालन करें और हाथ धोएं।  
Cover your mouth and nose with tissue paper or cloth when you cough or sneeze or use inside of your elbow and immediately wash your hand with soap and water.
- 6- प्रत्येक कर्मचारी अपने साथ मास्क व सेनिटाइजर अवश्य रखें।  
Each staffs must carry mask, sanitizer.

*Pratima*